



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2010/अग्रहायण 29, 1932

No. 683]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2010/AGRAHAYANA 29, 1932

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 984(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक विभाग (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम 2002 के अधिक्रमण में और उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतद्वारा डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों से जुड़ी भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (मल्टी टास्किंग स्टाफ), भर्ती नियम, 2010 होगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ जुड़ी अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता :**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।

5. **सेना डाक सेवा में सेवा प्रदान करने की अपेक्षा.**—कथित अनुसूची में उल्लिखित पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति होने पर, वह भारत या विदेश में जैसा भी अपेक्षित होगा, कार्य करने का पात्र होगा ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और व्यावृत्ति उन रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियाँ, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा गैर चयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
--------	-----------	----------	---------------------------------	---------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. मल्टी टास्किंग स्टाफ भाग-1 सर्किल एवं प्रशासनिक कार्यालयों के पद	510* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसूचिवीय)	वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु., ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्षों तक की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्षों तक की छूट)।

टिप्पण 1 : आयु-सीमा निर्धारण में निर्णायक तिथि, प्रत्येक मामले में भारत में उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की अंतिम तिथि होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उप डिवीजन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी)।

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती के मामले में आयु-सीमा के निर्धारण की निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु-सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो				
(8)	(9)	(10)				
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष अथवा आईटीआई। यदि किसी नैमित्तिक मजदूर को मल्टी टास्किंग स्टाफ के तौर पर नियुक्त किया जाता है और वह मैट्रिकुलेट नहीं है तो उसे नियुक्ति से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा।	लागू नहीं	दो वर्ष				
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता						
(11)	(12)					
(i) (क) 25% अस्थायी दर्जे के नैमित्तिक मजदूरों की चयन सह-वरिष्ठता आधार पर नियुक्ति और ऐसा न होने पर ; (ख) 1-9-1993 को अथवा उससे पूर्व नियोजित मौजूदा नैमित्तिक मजदूर जो एक दिन में पूरे आठ घंटे काम करते हों, चयन-सह-वरिष्ठता आधार पर नियुक्ति और ऐसा न होने पर ; (ग) 1-9-1993 को अथवा उससे पूर्व नियोजित मौजूदा अंशकालिक नैमित्तिक मजदूरों की चयन-सह-वरिष्ठता आधार पर नियुक्ति और ऐसा न हो पाने पर ; (घ) डाक विभाग द्वारा समय-समय पर परिचालित स्कीम के अनुसार सीधी भर्ती ; (ii) 75% डाक विभाग द्वारा समय-समय पर परिचालित स्कीम के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं					
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना						
भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।						
(13)	(14)					
विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) :						
1. सहायक पोस्टमास्टर जनरल अथवा एक वरिष्ठ/कनिष्ठ समयमान अधिकारी	— अध्यक्ष	लागू नहीं				
2. एक समूह 'क' अथवा समूह 'ख' (राजपत्रित) डाक/रेलवे मेल सेवा अधिकारी	— सदस्य					
3. डाक सर्किल अथवा किसी अन्य केन्द्र सरकार के विभाग अथवा कार्यालय का एक समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी	— सदस्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. मल्टी टास्किंग स्टाफ भाग-II अधी-नस्थ कार्यालयों के पद	37240* (2010) *कार्यभार के परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु., ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	खुली प्रतियोगिता के प्रत्याशियों के लिए 18 से 27 वर्ष (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित

(7)

जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्षों तक की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्षों तक की छूट)।

टिप्पण 1 : आयु-सीमा निर्धारण में निर्णायक तिथि, प्रत्येक मामले में भारत में उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम तिथि होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उप डिवीजन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी)।

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती के मामले में आयु-सीमा के निर्धारण की निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

टिप्पण 3 : ग्रामीण डाक सेवकों के लिए आयु-सीमा रिक्तियों वाले वर्ष की पहली जनवरी को 50 वर्ष है (भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तक की छूट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष तक की छूट प्राप्त है)।

(8)

(9)

(10)

मान्यताप्राप्त बोर्ड से मेट्रीकुलेशन अथवा समकक्ष अथवा आईटीआई।

लागू नहीं

दो वर्ष

ग्रामीण डाक सेवकों पर लागू नहीं। यदि ग्रामीण डाक सेवक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह मेट्रीकुलेट नहीं है तो उसे नियुक्ति से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यदि किसी नैमित्तिक मजदूर को मल्टी टार्किंग स्टाफ के तौर पर नियुक्त किया जाता है और वह मेट्रीकुलेट नहीं है तो उसे नियुक्ति से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(11)

(12)

(i) (क) 50% भर्ती करने वाले डिवीजन अथवा यूनिट के ग्रामीण डाक सेवकों* में से चयन-सह-वरिष्ठता आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।

लागू नहीं

*ग्रामीण डाक सेवक सिविल पद धारक होते हैं परन्तु वे नियमित सिविल सेवा के बाहर होते हैं, जिसके कारण से उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।

(ii) (क) 25% केवल भर्ती करने वाले डिवीजन अथवा यूनिट के ग्रामीण डाक सेवकों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, और ऐसा न हो पाने पर;

(ख) भर्ती करने वाले डिवीजन अथवा यूनिट के ग्रामीण डाक सेवकों में से चयन-सह-वरिष्ठता के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।

(iii) (क) 25% अस्थायी दर्जे वाले नैमित्तिक मजदूरों की चयन-सह-वरिष्ठता आधार पर नियुक्ति द्वारा, और ऐसा न होने पर;

(ख) 1-9-1993 को अथवा उससे पूर्व ऐसे नियोजित पड़ोसी नैमित्तिक मजदूर जो एक दिन में पूरे आठ घंटे काम करते हों, की चयन-सह-वरिष्ठता आधार पर नियुक्ति द्वारा, और ऐसा न होने पर;

(ग) पड़ोसी डिवीजन अथवा यूनिट के ऐसे अस्थायी दर्जे वाले नैमित्तिक मजदूरों की चयन-सह-वरिष्ठता आधार पर नियुक्ति द्वारा, और ऐसा न हो पाने पर;

(घ) 1-9-1993 को अथवा उससे पूर्व ऐसे नियोजित मौजूदा अंशकालिक नैमित्तिक मजदूरों की चयन-सह-वरिष्ठता आधार पर नियुक्ति द्वारा, और ऐसा न हो पाने पर ;

(ङ) 1-9-1993 को अथवा उससे पूर्व भर्ती डिवीजन अथवा यूनिट के नियोजित अंशकालिक नैमित्तिक मजदूरों की चयन-सह-वरिष्ठता आधार पर नियुक्ति द्वारा, और ऐसा न हो पाने पर ;

(च) ग्रामीण डाक सेवकों की अपने डिवीजन अथवा यूनिट में वरिष्ठता आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।

ऊपर (i), (ii) और (iii) द्वारा सीधी भर्ती न होने पर खुली प्रतियोगिता से

(यदि एक से अधिक पड़ोसी डिवीजन अथवा यूनिट हैं तो उनमें से सबसे वरिष्ठ नैमित्तिक मजदूर की नियुक्ति की जाएगी।)

स्पष्टीकरण :-

1. डाक डिवीजन अथवा यूनिट के लिए पड़ोसी डिवीजन अथवा यूनिट जैसा भी मामला होगा, वह रेल डाक सेवा उप डिवीजन अथवा उसके विलोमतः होगा।

2. ऊपर उल्लिखित परीक्षा डाक विभाग द्वारा खुली प्रतियोगिता से आवेदकों की चयनित सूची बनाने के मानदंडों, परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा पैटर्न आदि के संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों के अधीन शासित होगी जोकि समय-समय पर ओपन मार्केट, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा के पैटर्न आदि के आधार पर आवेदकों की छंटाई की जाएगी।

(13)

(14)

विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) :

1. सहायक पोस्टमास्टर अथवा एक वरिष्ठ/कनिष्ठ समयमान अधिकारी	—अध्यक्ष	लागू नहीं
2. एक समूह 'क' अथवा समूह 'ख' (राजपत्रित) डाक/रेलवे मेल सेवा अधिकारी	—सदस्य	
3. डाक सर्किल अथवा किसी अन्य केन्द्र सरकार के विभाग अथवा कार्यालय का एक समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी	—सदस्य	

[फा. सं. 37-33/2009-एसपीबी-1]

सूरज भान, सहायक महानिदेशक (एसपीएन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2010

G.S.R. 984(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Posts (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Multi Tasking Staff in the Department of Posts, Ministry of Communications and Information Technology, namely :—

1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Department of Posts Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, their Classification and Pay Band and Grade Pay/Scale of Pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to the rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Requirement to serve in the Army Postal Service :—Any person appointed to the posts specified in the said Schedule shall be liable to serve in the Army Postal Service in India or abroad, as required.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-serviceman, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Multi Tasking Staff PART-I- Posts of Circle and Administrative Offices	510* (2010) *Subject to Variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted Non-Ministerial)	PB-1 Pay Scale Rs. 5200-20200+ Grade Pay- Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	18-27 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years for candidates Castes/Scheduled Tribes up to five years and for candidates belonging to Other Backward Classes up to three years in accordance with the instructions issued by the Government of India).
<p>Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2. In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>						

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Matriculation or Equivalent or ITI from recognized Boards. In case a Casual Labourer to be appointed as Multi Tasking Staff is not Matriculate he shall be given training before he is appointed.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grad from which promotion or deputation or absorption to be made
--	---

(11)	(12)
(i) (a) 25% by appointment of Casual Labourers conferred with temporary status on the basis of Selection-cum-seniority failing which by;	Not applicable
(b) appointment of existing Casual Labourers engaged on or before 1-9-1993 working for eight full hours in a day on the basis of selection-cum-seniority failing which by;	
(c) appointment of existing part time Casual Labourers, engaged on or before 1-9-1993, on the basis of selection-cum-seniority failing which by;	
(d) direct recruitment as per the scheme circulated by the Department of Posts from time to time;	
(ii) 75% by direct recruitment as per the scheme circulated by the Department of Posts from time to time;	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
---	--

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :—	Not applicable.
(i) Assistant Postmaster General or a Senior/Junior Time Scale Officer/Junior Time Scale Officer	— Chairperson
(ii) A Group 'A' or Group 'B' (Gazetted) Postal Railway Mail Service Officer	— Member
(iii) A Group 'B' (Gazetted) Officer of the Postal Circle or any other Central Government Department or Office	— Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Multi Tasking Staff PART-II- Posts of Subordinate Office	37240* (2010) *Subject to Variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted Non-Ministerial)	PB-1 Pay Scale Rs.5200-20200+ Grade Pay- Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	18-27 years for candidates from open market. (Relaxable for Government Servants upto 35 years, for candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes up to five years and for candidates belonging to Other Backward Classes up to three years in accordance with the instructions issued by the Government of India.

Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall in

(7)

each case be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).

Note 2. In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which Employment Exchange is asked to submit the names.

Note 3. The age limit for appointment of Gramin Dak Sewaks shall be 50 years as on the first day of January of the year of the vacancy (ies) Relaxable for those belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes up to five years and for those belonging to Other Backward Classes up to three years in accordance with the instructions issued by the Government of India.

(8)	(9)	(10)
<p>Matriculation or Equivalent or ITI from recognized Boards.</p> <p>Not applicable in the case of Gramin Dak Sewaks. If the Gramin Dak Sewak selected for appointment by direct recruitment is non Matriculate, he shall be given training before he is appointed.</p> <p>In case a Casual Labourer to be appointed as Multi Tasking Staff is non Matriculate he shall be given training before he is appointed.</p>	Not applicable	Two years
(11)	(12)	
<p>(i) 50% by direct recruitment from amongst Gramin Dak Sewaks* of recruiting and Division or Unit, on the basis of Selection-cum-seniority;</p> <p>*Gramin Dak Sewaks are holders of civil posts but they are outside the regular civil service due to which their appointment will be by direct recruitment.</p> <p>(ii) (a) 25% by direct recruitment on the basis of Competitive Examination restricted to the Gramin Dak Sewaks of the Division or Unit, failing which by;</p>	Not applicable	

(11)

(b) direct recruitment from amongst Gramin Dak Sewaks of the recruiting Division or Unit on the basis of selection-cum-seniority;

(iii) (a) 25% by appointment of Casual Labourers conferred with temporary status on the basis of selection-cum-seniority failing which by;

(b) appointment of Casual Labourers engaged on or before 1-9-1993, working for eight full hours in a day, on the basis of selection-cum-seniority failing which by;

(c) appointment of Casual Labourers conferred with temporary status in the neighboring Division or Unit on the basis of selection-cum-seniority failing which by;

(d) Appointment of Casual Labourers engaged on or before 1-9-1993, working for eight full hours in a day of the neighboring Division or Unit; on the basis of Selection-cum-seniority failing which by;

(e) Appointment of part time Casual Labourers engaged on or before 1-9-1993, of the recruiting Division or Unit on the basis of selection-cum-seniority failing which by;

(f) by direct recruitment from amongst Gramin Dak Sevaks of the basis of their seniority in the Division or Unit

Failing (i), (ii) and (iii) above by direct recruitment from open market.

(If there are more than one neighboring Division or Unit the senior most Casual Labourer of that status amongst them shall be appointed)

Explanation :—

1. For Postal Division or Unit, the neighboring Division or Unit as the case may be, shall be the Railway Mail Service Sub Division and vice-versa.

2. The above mentioned examination shall be governed by the instructions issued by the Department of Posts regarding the short listing criteria of the applicants from open market, syllabus and pattern of the test, etc. from time to time.

(13)

Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :—

- | | |
|--|--------------|
| (i) Assistant Postmaster General or a Senior/Junior Time Scale Officer | —Chairperson |
| (ii) A Group 'A' or Group 'B' (Gazetted) Postal/Railway/ Mail Service Officer | —Member |
| (iii) A Group 'B' (Gazetted) Officer of the Postal Circle or any other Central Government Department or Office | — Member |

(14)

Not applicable.

[F. No. 37/33/2009-SPB-I]

SURAJ BHAN, Asstt. Director General (SPN)